बेनिटो जुआरेज़

मेक्सिको के राष्ट्रपति



बेनिटो जुआरेज़

मेक्सिको के राष्ट्रपति



1806 में बेनिटो जुआरेज़ का जन्म मेक्सिको के एक गाँव में हुआ था. उनके माता-पिता ज़ापोटेक मूल के थे. बेनिटो के तीन साल के होने तक उसके माता-पिताकी मृत्यु हो गई.



मेक्सिको के मूल निवासी मक्का पीसकर टॉर्टिला बनाते थे.

फिर बेनिटो अपने दादा और फिर अपने चाचा के साथ रहे. जैसे-जैसे बेनिटो बड़े हुए, उसके दिन अपने चाचा की भेड़ों की देखभाल में बीतते गए.



ओक्साका में आज एक दंपत्ति खेती करते हुए.

उस समय मेक्सिको पर स्पेन का शासन था. अपने गाँव के अधिकांश लोगों की तरह, बेनिटो भी केवल ज़ापोटेक भाषा बोलता था. वह स्पेनिश बोलना और लिखना सीखना चाहता था.



बेनिटो के समय में, पुजारी अक्सर मैक्सिकन मूल के बच्चों को स्पेनिश पढ़ना सिखाते थे.

जब बेनिटो बारह साल का था, तो उसने अपना गाँव छोड़ दिया. वह लगभग चालीस मील पैदल चलकर ओक्साका शहर पहुँचा. वहाँ वह उस घर में रहा जहाँ उसकी बड़ी बहन रहती और नौकरानी का काम करती थी.



ओक्साका में यह चर्च 1500 के दशक में बना था. वो आज भी खड़ा है.

बेनिटो को एक बहुत अमीर आदमी के यहाँ नौकरी मिली. वह आदमी बेनिटो को पसंद करता था और उसने उसे स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद की.

बेनिटो ने कला और विज्ञान संस्थान से कानून की पढ़ाई की.

जैसे-जैसे वह बड़ा हुआ, बेनिटो ने देखा कि गरीबों और अमीरों से अलग व्यवहार किया जाता था. उसे यह अनुचित लगा. उसने वकील बनने के लिए पढ़ाई की ताकि वह गरीब लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सके.

ओक्साका में आज एक घर.

जब तक बेनिटो ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, मेक्सिको स्पेन से आज़ाद हो चुका था. लेकिन नई सरकार के लोग अभी भी मेक्सिकन लोगों के साथ अन्याय कर रहे थे. जुआरेज़ ने उस स्थिति को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की.



बेनिटो जुआरेज़

एंटोनियो सांता अन्ना

स्पेन से आज़ादी मिलने के बाद जुआरेज़ और सांता अन्ना मैक्सिकन सरकार पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़े.

बेनिटो जुआरेज़ ओक्साका राज्य के गवर्नर बने. उन्होंने स्कूल और सड़कें बनवाईं. गरीब उन्हें प्यार करते थे, लेकिन अमीर नहीं. उन्होंने जुआरेज़ को मेक्सिको छोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन वे जल्द ही वापस लौट आए.



ओक्साका आज.

जुआरेज़ एक शक्तिशाली विधायक बने. उनके एक कानून, जिसे जुआरेज़ कानून कहा जाता है, में कहा गया कि सभी मेक्सिकन एक-समान थे. उनके कई विचार 1857 के संविधान में शामिल किए गए.



उनका संविधान मेक्सिको में सुधार लाया.

बेनिटो जुआरेज़ 1858 में राष्ट्रपति बने. मेक्सिको में सेनाएँ आपस में लड़ रही थीं, लेकिन राष्ट्रपति जुआरेज़ ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए विजय प्राप्त की.

कई संघर्षों के बाद, राष्ट्रपति जुआरेज़ विजयी होकर मेक्सिको सिटी लौटे.

राष्ट्रपति जुआरेज़ का महल में स्वागत किया गया.

बेनिटो जुआरेज़ का राष्ट्रपति के रूप में अपने चौथे कार्यकाल में निधन हो गया. आज भी मेक्सिकन उन्हें एक महान नायक के रूप में सम्मान देते हैं.

बेनिटो जुआरेज़ के सम्मान में स्मारक, मेक्सिको सिटी (ऊपर) और ओक्साका (बाएँ) में

आइए जानें!

बेनिटो जुआरेज़ का जन्म ओक्साका के पास एक गाँव में हुआ था. राष्ट्रपति के रूप में, वे मेक्सिको सिटी में रहते थे. मानचित्र पर मेक्सिको सिटी को इंगित करें. बताएँ कि मेक्सिको सिटी ओक्साका से किस दिशा में है.

आप क्या सोचते हैं?

स्पेनिश शब्द

बेनिटो ने बारह साल की उम्र में स्पेनिश सीखी थी. आप भी स्पेनिश में दो शब्द जैसे सीखें, जैसे हैलो और गुड-बाय. इन शब्दों का प्रयोग किसी दोस्त के साथ करें.

जनता का आदमी

बेनिटो जुआरेज़ बारह साल की उम्र में ओक्साका गए थे. वे मुश्किल से ही स्पेनिश बोल पाते थे. स्कूल में या किसी नई जगह पर आपने पहला दिन कैसा महसूस किया, उसके बारे में लिखें.

कैसे सीखें

बेनिटो स्पेनिश बोलना सीखना चाहते थे. आप क्या सीखना चाहेंगे? ऐसा करते हुए अपना एक चित्र बनाएँ.

सिन्को डे मेयो

5 मई, 1862 की सुबह, मैक्सिकन सेना ने पुएब्ला शहर में फ्रांसीसी सेना को हरा दिया. अंततः, बेनिटो जुआरेज़ के नेतृत्व में मैक्सिकन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की. हर साल 5 मई को, कई मैक्सिकन और मैक्सिकन अमेरिकी सिन्को डे मेयो मनाते हैं.

प्रमुख घटनाएँ

1806	1806 मेक्सिको के ओक्साका राज्य में जन्म
1818	1818 पढ़ाई के लिए ओक्साका शहर गए
1828	1828 कॉलेज गए
1831	1831 ओक्साका में वकालत शुरू की
1843	1843 मार्गरीटा माज़ा से विवाह किया
1847	1847 ओक्साका राज्य के राज्यपाल चुने गए
1855	1855 न्याय मंत्री बने
1858	1858 मेक्सिको के राष्ट्रपति बने
1872	1872 मेक्सिको सिटी में निधन

1972 में, मेक्सिको के राजदूत ने कांग्रेस पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष को बेनिटो जुआरेज़ का एक चित्र भेंट किया.